

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 588]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2010—कार्तिक 28, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. एफ 3-6-2010-एक-4.—सन् 2011 में निम्नलिखित सामान्य (जनरल) छुट्टियां मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में मनाई जायेंगी:—

सामान्य (जनरल) छुट्टियां

छुट्टी का नाम (1)	घोषित छुट्टियों की संख्या (2)	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्) (4)	सप्ताह के दिन (5)
समस्त रविवार				
गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1932	बुधवार
मिलाद-उन-नबी	एक	16 फरवरी	माघ 27, 1932	बुधवार
संत रविदास जयन्ती	एक	18 फरवरी	माघ 29, 1932	शुक्रवार
महाशिवरात्रि	एक	2 मार्च	फाल्गुन 11, 1932	बुधवार
गुड़ी पड़वा	एक	4 अप्रैल	चैत्र 14, 1933	सोमवार
चैती चांद	एक	5 अप्रैल	चैत्र 15, 1933	मंगलवार
रामनवमी	एक	12 अप्रैल	चैत्र 22, 1933	मंगलवार
डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1933	गुरुवार
महावीर जयन्ती	एक	16 अप्रैल	चैत्र 26, 1933	शनिवार
गुड फ्रायडे	एक	22 अप्रैल	वैशाख 2, 1933	शुक्रवार
बुद्ध पूर्णिमा	एक	17 मई	वैशाख 27, 1933	मंगलवार
रक्षाबंधन	एक	13 अगस्त	श्रावण 22, 1933	शनिवार
स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1933	सोमवार
जन्माष्टमी	एक	22 अगस्त	श्रावण 31, 1933	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ईद-उल-फित्	एक	31 अगस्त	भाद्रपद 9, 1933	बुधवार
दशहरा (विजयादशमी)	एक	6 अक्टूबर	आश्विन 14, 1933	गुरुवार
महर्षि वाल्मिकी जयन्ती	एक	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1933	मंगलवार
दीपावली	एक	26 अक्टूबर	कार्तिक 4, 1933	बुधवार
ईदुज्जुहा	एक	7 नवम्बर	कार्तिक 16, 1933	सोमवार
गुरुनानक जयन्ती	एक	10 नवम्बर	कार्तिक 19, 1933	गुरुवार
मोहर्रम	एक	6 दिसम्बर	अग्रहायण 15, 1933	मंगलवार

टीप .— (1) इस विषय में कोषागार एवं उप कोषागार निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2010 की अधिसूचना से नियंत्रित होंगे.

(2) होली	20	मार्च	फाल्गुन 29, 1932
गांधी जयन्ती	02	अक्टूबर	आश्विन 10, 1933
क्रिसमस-डे	25	दिसम्बर	पौष 4, 1933

ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. एफ-3-6-2010-एक-4.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक छुट्टियों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्न अनुसूची में उल्लिखित दिन भी सन् 2011 के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे:—

अनुसूची

छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1932	बुधवार
मिलाद-उन-नबी	एक	16 फरवरी	माघ 27, 1932	बुधवार
महाशिवरात्रि	एक	2 मार्च	फाल्गुन 11, 1932	बुधवार
बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	1 अप्रैल	चैत्र 11, 1933	शुक्रवार
रामनवमी	एक	12 अप्रैल	चैत्र 22, 1933	मंगलवार
महावीर जयन्ती	एक	16 अप्रैल	चैत्र 26, 1933	शनिवार
गुड फ्रायडे	एक	22 अप्रैल	वैशाख 2, 1933	शुक्रवार
बुद्ध पूर्णिमा	एक	17 मई	वैशाख 27, 1933	मंगलवार
स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1933	सोमवार
जन्माष्टमी	एक	22 अगस्त	श्रावण 31, 1933	सोमवार
ईद-उल-फित्	एक	31 अगस्त	भाद्रपद 9, 1933	बुधवार
बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी	एक	30 सितम्बर	आश्विन 8, 1933	शुक्रवार
दशहरा (विजयादशमी)	एक	6 अक्टूबर	आश्विन 14, 1933	गुरुवार
दीपावली	एक	26 अक्टूबर	कार्तिक 4, 1933	बुधवार
ईदुज्जुहा	एक	7 नवम्बर	कार्तिक 16, 1933	सोमवार
गुरुनानक जयन्ती	एक	10 नवम्बर	कार्तिक 19, 1933	गुरुवार
मोहर्रम	एक	6 दिसम्बर	अग्रहायण 15, 1933	मंगलवार

टीप .— (1) होली	20 मार्च	फाल्गुन	29,	1932
गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर	आश्विन	10,	1933
क्रिसमस-डे	25 दिसम्बर	पौष	4,	1933

ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2010

ऐच्छिक (आप्शनल) छुट्टियां

स. क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नववर्ष दिवस	एक	1 जनवरी	पौष 11, 1932	शनिवार
2	गुरु गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस	एक	5 जनवरी	पौष 15, 1932	बुधवार
3	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.	एक	6 जनवरी	पौष 16, 1932	गुरुवार
4	मकर संक्रांति	एक	14 जनवरी	पौष 24, 1932	शुक्रवार
5	पोंगल	एक	15 जनवरी	पौष 25, 1932	शनिवार
6	बसंत पंचमी	एक	8 फरवरी	माघ 19, 1932	मंगलवार
7	देव नारायण जयन्ती	एक	9 फरवरी	माघ 20, 1932	बुधवार
8	नर्मदा जयन्ती	एक	10 फरवरी	माघ 21, 1932	गुरुवार
9	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.	एक	17 फरवरी	माघ 26, 1932	गुरुवार
10	शबरी जयंती	एक	24 फरवरी	फाल्गुन 5, 1932	गुरुवार
11	होली (होलिका दहन)	एक	19 मार्च	फाल्गुन 28, 1932	शनिवार
12	भाई दूज	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1932	सोमवार
13	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	एक	25 मार्च	चैत्र 4, 1933	शुक्रवार
14	भक्त माता कर्मा जयन्ती	एक	30 मार्च	चैत्र 9, 1933	बुधवार
15	निषादराज जयन्ती	एक	8 अप्रैल	चैत्र 18, 1933	शुक्रवार
16	विशु	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1933	गुरुवार
17	वल्लभाचार्य जयन्ती	एक	28 अप्रैल	वैशाख 8, 1933	गुरुवार
18	सेन जयन्ती	एक	29 अप्रैल	वैशाख 9, 1933	शुक्रवार
19	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	एक	5 मई	वैशाख 15, 1933	गुरुवार
20	परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया	एक	6 मई	वैशाख 16, 1933	शुक्रवार
21	छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती	एक	4 जून	ज्येष्ठ 14, 1933	शनिवार
22	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	एक	9 जून	ज्येष्ठ 19, 1933	गुरुवार
23	महेश जयन्ती	एक	10 जून	ज्येष्ठ 20, 1933	शुक्रवार
24	बड़ा महादेव पूजन	एक	13 जून	ज्येष्ठ 23, 1933	सोमवार
25	कबीर जयन्ती	एक	15 जून	ज्येष्ठ 25, 1933	बुधवार
26	हजरत अली का जन्म दिवस	एक	16 जून	ज्येष्ठ 26, 1933	गुरुवार
27	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	एक	24 जून	आषाढ़ 3, 1933	शुक्रवार
28	गुरु पूर्णिमा	एक	15 जुलाई	आषाढ़ 24, 1933	शुक्रवार
29	नागपंचमी	एक	4 अगस्त	श्रावण 13, 1933	गुरुवार
30	दुर्गादास राठौर जयन्ती	एक	13 अगस्त	श्रावण 22, 1933	शनिवार
31	पारसी नववर्ष दिवस	एक	19 अगस्त	श्रावण 28, 1933	शुक्रवार
32	जमात-उल-विदा	एक	26 अगस्त	भाद्रपद 4, 1933	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	ईद-उल-फित् (के ठीक पूर्व का दिवस)	एक	30 अगस्त	भाद्रपद 8, 1933	मंगलवार
34	गणेश चतुर्थी	एक	1 सितम्बर	भाद्रपद 10, 1933	गुरुवार
35	डोलग्यारस	एक	8 सितम्बर	भाद्रपद 17, 1933	गुरुवार
36	ओणम	एक	9 सितम्बर	भाद्रपद 18, 1933	शुक्रवार
37	विश्वकर्मा जयन्ती	एक	17 सितम्बर	भाद्रपद 26, 1933	शनिवार
38	प्राणनाथ जयन्ती	एक	26 सितम्बर	आश्विन 4, 1933	सोमवार
39	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या	एक	27 सितम्बर	आश्विन 5, 1933	मंगलवार
40	अग्रसेन जयन्ती	एक	28 सितम्बर	आश्विन 6, 1933	बुधवार
41	दशहरा (महाअष्टमी)	एक	4 अक्टूबर	आश्विन 12, 1933	मंगलवार
42	दशहरा (महानवमी)	एक	5 अक्टूबर	आश्विन 13, 1933	बुधवार
43	महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव	एक	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1933	मंगलवार
44	करवा चौथ पर्व	एक	15 अक्टूबर	आश्विन 23, 1933	शनिवार
45	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	25 अक्टूबर	कार्तिक 3, 1933	मंगलवार
46	दीपावली का दूसरा दिन	एक	27 अक्टूबर	कार्तिक 5, 1933	गुरुवार
47	भाईदूज	एक	28 अक्टूबर	कार्तिक 6, 1933	शुक्रवार
48	भगवान सहस्रबाहु जयन्ती	एक	2 नवम्बर	कार्तिक 11, 1933	बुधवार
49	गदीर-एक-खुम	एक	14 नवम्बर	कार्तिक 23, 1933	सोमवार
50	बिरसा मुंडा जयन्ती	एक	15 नवम्बर	कार्तिक 24, 1933	मंगलवार
51	झलकारी जयन्ती	एक	22 नवम्बर	अग्रहायण 1, 1933	मंगलवार
52	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	एक	24 नवम्बर	अग्रहायण 3, 1933	गुरुवार
53	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	एक	1 दिसम्बर	अग्रहायण 10, 1933	गुरुवार
54	योम-ए-अशुरा	एक	5 दिसम्बर	अग्रहायण 14, 1933	सोमवार
55	दत्तात्रय जयन्ती	एक	10 दिसम्बर	अग्रहायण 19, 1933	शनिवार
56	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	एक	31 दिसम्बर	पौष 10, 1933	शनिवार

टीप .—(1) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 56 ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियां दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.

(2) निम्नलिखित त्यौहार/जयन्तियां आदि रविवार को पड़ने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है:—

1.	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	27 फरवरी	फाल्गुन 8, 1932
2.	वीरांगना अवन्ती बाई का बलिदान दिवस	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1932
3.	हाटकेश्वर जयन्ती	17 अप्रैल	चैत्र 27, 1933
4.	शंकराचार्य जयन्ती	8 मई	वैशाख 18, 1933
5.	रथ यात्रा	3 जुलाई	आषाढ़ 12, 1933
6.	शब-ए-बारात	17 जुलाई	आषाढ़ 26, 1933
7.	नवाखाई	4 सितम्बर	भाद्रपद 13, 1933
8.	अनंत चतुर्दशी	11 सितम्बर	भाद्रपद 20, 1933
9.	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर	भाद्रपद 27, 1933
10.	नामदेव जयन्ती/ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	6 नवम्बर	कार्तिक 15, 1933
11.	गुरुघासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर	अग्रहायण 27, 1933

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.